

फैक्ट्री में बना रहे थे नकली देसी घी



Publish Date: Mon, 02 Nov 2020 06:54 AM (IST) Author: **Jagran**

बालसमंद रोड पर एक फैक्ट्री में नकली देसी घी बनाया जा रहा था। इस घी को त्योहार में बेचकर लोगों की सेहत बिगाड़कर मुनाफा कमाने की तैयारी थी। बाजार में जाने से पहले ही सीएम फ्लाइंग टीम व स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ फैक्ट्री पर छापा मार दिया।

जागरण संवाददाता, हिसार : बालसमंद रोड पर एक फैक्ट्री में नकली देसी घी बनाया जा रहा था। इस घी को त्योहार में बेचकर लोगों की सेहत बिगाड़कर मुनाफा कमाने की तैयारी थी। बाजार में जाने से पहले ही सीएम फ्लाइंग टीम व स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ फैक्ट्री पर छापा मार दिया।

रविवार दोपहर करीब एक बजे सीएम फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग की टीम की बालसमंद रोड पर स्थित श्री श्याम फूड प्रोडक्ट्स के नाम से चल रही देसी घी की फैक्ट्री पर पहुंची। यहां कार्रवाई के दौरान अलग-अलग ब्रांड (हरियाणा दीप शुद्ध देसी घी, डेयरी शुद्ध देसी घी और खुला घी) का करीब 1327 लीटर देसी घी जब्त किया गया। टीम ने 4 घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त किए। फैक्ट्री मालिक अजय के पास लाइसेंस भी नहीं मिला। एसआइ रमेश कुमार की शिकायत पर आजाद नगर थाने में उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। सीएम फ्लाइंग टीम में सब इंस्पेक्टर राजवीर, सब इंस्पेक्टर रणधीर, एसआइ जयवीर, एसआइ सुरेंद्र, हवलदार अनिल व धर्मवीर मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग से खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. अरविद्रजीत व उनकी टीम के सदस्य मौजूद रहे।

टीम ने वीरवार को राजगढ़ रोड स्थित सालासर रसगुल्ला प्लांट व अमरदीप कॉलोनी स्थित आदर्श मिल्क प्रोडक्ट्स में छापेमारी की थी। वहां भी मालिकों के पास भी लाइसेंस नहीं मिले थे। इसके बाद शुक्रवार को भी टीम ने आदमपुर में छापेमारी की थी।

अलग-अलग ब्रांड के डिब्बों में पैक किया जा रहा था नकली देसी घी

जब सीएम फ्लाइंग टीम, फूड सेफ्टी ऑफिसर अरविद्रजीत की टीम व एएफएसओ कृष्ण सांगवान के साथ छापेमारी की गई तो फैक्ट्री मालिक के साथ चार कर्मचारी वहां काम कर रहे थे। नकली देसी घी को विभिन्न प्रकार के ब्रांड के डिब्बों में पैक किया जा रहा था।

बालसमंद रोड पर एक देसी घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। वहां से भारी मात्रा में नकली देसी घी बरामद हुआ है। फैक्ट्री मालिक के पास लाइसेंस नहीं था। घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है।

Source: <https://www.jagran.com/haryana/hisar-factory-to-make-fake-ghee-caught-in-hisar-21004248.html>